

Ref No: PSB/HO/Shares Cell / 78 /2025-26

January 19, 2026

To,

<b>BSE Limited,</b> <b>Department of Corporate Services,</b> 25 <sup>th</sup> floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, <u>Mumbai – 400 001.</u> <b>SCRIP ID : PSB</b> <b>SCRIP CODE : 533295</b>	<b>National Stock Exchange of India Ltd.,</b> Exchange Plaza, C – 1, Block – G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), <u>Mumbai – 400 051.</u> <b>SYMBOL: PSB SERIES: EQ</b>
---	---

Dear Sir,

**Reg: Publication of Reviewed Unaudited Financial Results of the Bank for the Quarter (Q3) / Nine Months ended December 31, 2025.**

Reviewed Unaudited Financial Results of the Bank for the Quarter (Q3) / Nine Months ended December 31, 2025 were approved by the Board of Directors of the Bank, in its meeting held on January 17, 2026 and this was informed to the Stock Exchanges.

The results were published in Financial Express (English edition), Business Standard (English and Hindi edition), Business Line (English edition) and Jansatta (Hindi edition) on January 18, 2026. We are enclosing a copy of newspapers wherein the Reviewed Unaudited Financial Results of the Bank for the Quarter (Q3) / Nine Months ended December 31, 2025 were published.

Request you to take note of the above.

Yours faithfully

**Saket Mehrotra**  
**Company Secretary**









## How markets performed last week

	% chg over Dec 31, 25	January 16 One-week	Local currency in US\$
Sensex	83,570	0.0	-1.9
Nifty	25,694	0.0	-1.7
Dow Jones	49,359	-0.3	2.7
Nasdaq	23,515	-0.7	1.2
Hang Seng	26,845	2.3	4.7
Nikkei (Dec 30)	53,936	3.8	7.1
FTSE	10,235	1.1	3.1
DAX	25,297	0.1	3.3

\*Change (%) over previous week

Source: Bloomberg

www.business-standard.com

# Business Standard



## COMPANIES 2

World Wide Web inventor wants to bring his digital data system to India



## ECONOMY &amp; PUBLIC AFFAIRS 6

New labour Codes raise operating expenses of pvt banks, insurers

## WORLD 8

Trump's Greenland pressure blitz reopens tariff wounds in Europe



Read today's Business Standard online. Regular readers can check eligibility for one-year complimentary digital access to The New York Times

## BS SPECIALS ON MONDAY

### BANKERS' TRUST

The long road to recovery  
 IBC and NCLT have immensely helped banks in recovery and resolution of bad debt, but we need more NCLT members and Benches to reduce time taken, writes TAMAL BANDYOPADHYAY

### STATSGURU

From cash to clicks  
 TECH 4.0  
 Open source makes business sense

**ICL**  
**ICL Fincorp**  
**GOLD LOAN @ 7.5% PAISE**  
 MONTHLY INTEREST RATE PER ₹ 100  
**LOW INTEREST RATE**  
**HIGH VALUE | EASY PROCESSING**  
 TOLL-FREE : 1800 31 333 53

## BUSINESS STANDARD POLL

## Nominal GDP growth for FY27 seen at 10-10.5%

RUCHIKA CHITRAVANSHI  
 New Delhi, 18 January

The upcoming Union Budget, to be presented on February 1, is likely to assume nominal gross domestic product (GDP) growth between 10 and 10.5 per cent for the financial year 2026-27 (FY27), a Business Standard poll of economists showed.

The first advance estimates of GDP for FY26, released earlier this month, indicated that the nominal GDP might grow by 8 per cent to ₹357 trillion during the current financial year, compared to 9.8 per cent in FY25. The Ministry of Finance will use this as the base to calculate the nominal GDP for FY27. However, the statistics ministry will release the second advance estimates of GDP for FY26 on February 27 with the new base year of 2022-23, which may change the Budget assumption for nominal GDP growth.

Nominal GDP — calculated

at current market prices — factors in the effect of inflation. It is used as the base to calculate crucial macroeconomic indicators, such as debt-to-GDP ratio, fiscal deficit, and revenue buoyancy among others.

FY27 will also be the first year when the central government will shift to the debt-to-GDP ratio as the primary fiscal anchor, moving away from the practice of using the fiscal deficit as the operational target. A higher nominal GDP assumption makes it easier for the finance minister to show a narrower debt-to-GDP ratio and vice-versa. The FY26 nominal GDP growth is seen at 8 per cent due to a low inflation print.

"With inflation moving from lower levels, the deflator is expected to be 2.5 to 3 per cent. As a result, the nominal GDP growth rate is projected to be higher for the next financial year," said Madan Sabnavis, chief economist, Bank of Baroda.

Turn to Page 6



## Growth forecast

Nominal GDP growth for FY27 (Y-o-Y %)

India Ratings	9.7
Icra	9.8
Nomura	10
Bank of Baroda	10
UBS	10
HDFC Bank	10.1
CareEdge	10.1
QuantEco Research	10.4
Elara Global Research	10.5
Crisil	10.5

Source: BS Research

## Soon, single monthly snapshot to reflect all your savings

KHUSHBOO TIWARI, VISHAL CHHABRIA & VIKAS DHOOOT  
 Mumbai/New Delhi, 18 January

India's banking, financial services and insurance (BFSI) consumers may soon be able to take a comprehensive view of their savings and investments across asset classes with a single monthly snapshot statement, instead of separately reviewing and adding up month-end balances reported by the likes of mutual funds and banks, according to a proposal being discussed among financial regulators.

Currently, mutual fund (MF) and stock market investors receive a consolidated account statement every month with their transaction details across MF schemes and securities held in the demat form, under a single Permanent Account Number (PAN). Retirement savings parked in the National Pension System regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) have also been integrated into this consolidated account statement (CAS).

The stock market regulator, Securities and Exchange Board of India (Sebi), has now initiated parleys with other regulators, including the Reserve Bank of India (RBI), the Insurance Regulatory Development Authority of India (Irdai), to expand the CAS disclosures to reflect the status of other investments and savings products, including small savings schemes, bond holdings and provident fund (PF) savings. Turn to Page 6

## SunSource founder-led trio plans ₹10K cr cleantech push

SUDHEER PAL SINGH  
 New Delhi, 18 January

Renewable energy investor Kushagra Nandan, who cofounded SunSource Energy in 2011 and biofuel firm REnergy Dynamics (RED) in 2024, has launched a new cleantech company, LNK Energy, along with investor Varun Karad and Paritosh Ladhani, joint managing director of SLMG Beverages, India's largest Coca-Cola bottler.

The trio plans to invest around ₹10,000 crore over the next five years in setting up a solar equipment manufacturing factory in Maharashtra, and later expand operations into green fuels, including green hydrogen, renewable energy development, and energy storage. Turn to Page 6



The trio, (from left) Varun Karad, Paritosh Ladhani and Kushagra Nandan, has joined hands to form a new company, LNK Energy

■ Discoms flip switch to profit, clock ₹2,701 crore in FY25

## PAGE 4 India may play out as a growth story in Davos

WORLD ECONOMIC FORUM

The weeklong 56th annual meeting of the World Economic Forum, starting January 19 in Davos, will have a strong desi flavour this year, with a large delegation of ministers, industrialists and chief executives, along with senior representatives of state governments, headed to the Swiss town, writes NIVEDITA MOOKERJII

■ India's Davos strategy gets eastern tilt: Assam, Jharkhand widen playbook  
 ■ Exim matters: 'A spirit of dialogue' at WEF, Davos, amid Trump's unilateralism  
 ■ Intelligent choice architectures: Turning AI's potential into performance, writes K KRISHNAN

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**  
 (भारत सरकार का उपक्रम)

**Punjab & Sind Bank**  
 (A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

**Anek Upahar, Khushiyan Apaar**

**APNA GHAR PREMIUM**  
**APNA VAHAN**  
**DIGI MSME LOAN FOR YOUR BUSINESS**

AT ATTRACTIVE RATE OF INTEREST

Total Business Growth 11.75%  
 Gross Advances Growth 15.05%  
 Retail Advances Growth 19.58%  
 MSME Advances Growth 22.94%  
 PCR 92.23% (270 bps)

Reviewed Un-audited Financial results for the Quarter/ Nine Months ended 31st December, 2025

Particulars	Quarter ended 31.12.2025 (Reviewed)	Quarter ended 30.09.2025 (Reviewed)	Quarter ended 31.12.2024 (Reviewed)	Nine Months ended 31.12.2025 (Reviewed)	Nine Months ended 31.12.2024 (Reviewed)	Year ended 31.03.2025 (Audited)
	Total income from operations	354927	337328	326937	1030194	921325
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33642	29452	28196	90010	70305	101583
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))						
Paid up Equity Share Capital	709559	709559	677779	709559	677779	709559
Reserves (excluding Revaluation Reserve)						519647
Securities Premium Account	401926	401926	313198	401926	313198	401863
Net worth	1166380	1132065	923441	1166380	923441	1094618
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	733298	637029	609675	733298	609675	691065
Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debt Equity Ratio*	0.63	0.56	0.66	0.63	0.66	0.63
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic :	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
2. Diluted :	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debiture Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interest Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Total debts represent total borrowings of the Bank. Borrowings represent debts due for more than one year.  
 Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results are available on Stock Exchange website (BSE: www.bseindia.com and NSE: www.nseindia.com) and website of the Bank (https://punjabandsind.bank.in).  
 2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet applicable on banking.

For and on behalf of Board of Directors

Place: New Delhi  
 Date: 17.01.2026

Rajeeva  
 EXECUTIVE DIRECTOR

Ravi Mehra  
 EXECUTIVE DIRECTOR

Swarup Kumar Saha  
 MANAGING DIRECTOR & CEO

TOLL FREE NO.: 1800 419 8300

Do not share your Internet Banking details, such as, user ID/password or your credit card number/CVV/OTP with anyone either over phone or through email.  
 Email: ho.customerexcellence@psb.bank.in | Website: https://punjabandsind.bank.in

BECSA

My Power, Every Hour

Switch from  
 Traditional Solar  
 Modules to  
**HJT SOLAR MODULE**  
 Starting at ₹13.3 per Watt

15%  
 Higher Output  
 in Hot Weather

12%  
 Lower Cost  
 of Cable

For Captive  
 Industrial Roofs  
 Ground Mounts  
 Data Centres Biofuels

30 Years  
 Product and  
 Performance  
 Warranty

Trusted,  
 By Listed Firms.



Call at 85111 88796 www.becsa.co

becquer



**रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड**

# जियो की लिस्टिंग और खुदरा वृद्धि से बनेगी बात

राम प्रसाद साहू  
मुंबई, 18 जनवरी

बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी की रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) का दिसंबर तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही) का प्रदर्शन परिचालन के मोर्चे पर मोटे तौर पर बाजार की उम्मीदों के अनुरूप रहा। खुदरा क्षेत्र के कारण कंपनी के एकीकृत प्रदर्शन पर पड़े नकारात्मक असर की भ्रपाई कुछ हद तक श्नेल से रसायन (ओ2डी) और दूरसंचार कंपनी की क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन से हो गई। चूंकि खुदरा क्षेत्र के परिचालन प्रदर्शन में गिरावट ओ2डी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, इसलिए कुछ ब्लोकरेज फर्मों ने दूरसंचार कंपनी की लिस्टिंग और रिलायंस स्टिल की वृद्धि में बढ़त को मुख्य कारण मानते हुए अपने अनुमानों में मामूली कटौती की है। मौजूदा कीमत पर यह शेयर वित्त वर्ष 2027 की ओम के 25 गुना पर कारोबार कर रहा है।

रिलायंस रिटेल वच्चेस-आरआरबीएल-का कंपनी के संयुक्त राजस्व में करीब 30 फीसदी और प्रचालन लाभ में लगभग 14 फीसदी का योगदान है और इसके राजस्व में 9 फीसदी की वृद्धि हुई है। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के अलावा व्योहारी सीजन का कुछ हिस्सा जून तिमाही में चला गया। रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स (आरसीपीएल) के अड्डा होने से एक महीने का भी राजस्व पर असर पड़ा। आरसीपीएल

मूल्यांकन का मामला		
सेगमेंट	वित्त वर्ष 27 में परिचालन लाभ करोड़ रुपये	प्रति शेयर रुपये
तेल से केमिकल्स	63,900	354
अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस	12,800	66
संगठित खुदरा	28,000	497
अन्य	11,100	98
डिजिटल सेवाएं	73,800	655
न्यू एनर्जी	75,000	111
कुल	-	1781
इक्विटी वैल्यू माइनस शुद्ध कर्ज (लक्षित कीमत)		1,700
आकड़े : अनुमानित    स्रोत : सिस्टमैटिक रिसर्च		

आरआईएल के खुदरा कारोबार का, एफएमसी की शाखा है और इसके पास खाद्य, पेय पदार्थ, घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में प्रमुख ब्रांड हैं। खुदरा क्षेत्र में 431 नए स्टोर खुले। लोकनि बंद स्टोरों का शामिल करें तो तिमाही में शुद्ध स्टोरों की संख्या 158 रही। अवधि के अंत में स्टोरों की कुल संख्या 19,979 रही और नए स्टोरों के जुड़ने से खुदरा एरिया में पिछले वर्ष की तुलना में 7.1 फीसद की बढ़ोतरी हुई और यह 7.8 फीसद वर्ष फुट तक पहुंच गया।

कंपना अपन विक्क कामस काराबार म भारी निवेश कर रही है। जियो मार्ट हर दिन 16 लाख से अधिक बिक्री ऑर्डर के साथ

तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही है। रोजाना ऑर्डर में औसत वृद्धि पिछली तिमाही की तुलना में 53 फीसदी और पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 360 फीसदी रही है। इस दर से कंपनी क्विक कॉमर्स क्षेत्र में शीर्ष दो स्थानों पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है।

केन्द्रित करने और उसके विस्तार, कमजोर उत्पादमिश्रण और श्रम संहिता पर अमल को देखते हुए परिचालन लाभ में वृद्धि सालाना आधार पर 2 फीसदी तक सीमित रही जबकि इस खंड के मार्जिन में 55 आधार अंक की गिरावट आई और यह 7.8 फीसदी रह गया।

मातीलाल आसवाल रिसर्च ने वित्त वर्ष 2026-28 के लिए आरआईएल के परिचालन और शुद्ध लाभ के अनुमान में 0 से 3 फीसदी की कटौती की है। इसका मुख्य कारण आरआरवीएल की कमजोर वृद्धि और आरजियो में ऊंची ब्याज लागत है। आदित्य बंसल के नेतृत्व वाले बिजनेसकों ने वित्त वर्ष 2025-28 के लिए भी 10 फीसदी के संयुक्त परिचालन लाभ में 10 फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। उन्होंने आरआईएल को खरीद रेटिंग दी है और संशोधित लक्ष्य 1,750 रुपये तक किया है। दूसरे नजर क्षेत्र में मजबूत दर्शन ने अन्य क्षेत्रों की कुछ कमजोरियाँ को दूर करने में मदद की। प्रति ग्राहक औसत राजस्व में 5 फीसदी की सालाना वृद्धि और 89 लाख नए ग्राहकों की मजबूत वृद्धि से राजस्व में इजाफा हुआ। कुल ग्राहकों की संख्या अब 51.5 करोड़ है जबकि उसके 5जी ग्राहकों की संख्या 25.3 करोड़ से अधिक है, जो सालाना आधार पर 49 फीसदी अधिक है। भारत में 5जी ग्राहकों में कंपनी की लगभग दो-तिहाई हिस्सेदारी है। साथ ही इससे फिक्स्ड ब्रॉडबैंड क्षेत्र में भी उद्योग की वृद्धि को गति मिल रही है। इस क्षेत्र में ग्राहकों की कुल वृद्धि में उसका 70 फीसदी योगदान है। स्ट्रैटेमैटिक्स रिसर्च का अनुमान है कि जियो को आईपीओ वित्त वर्ष 2027 की शुरुआत में आरआईएल के लिए महत्वपूर्ण कारक साबित होगा। तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद इसने आर अनुमानों के परिचरित रखा है और शेयर की 1,700

रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ खरीद रेटिंग दी है।

अतः सा कारोबार म इधन क्राकिक प्रविहन म तीव्र वृद्धि अस्त्वल्पर की उच्च प्राप्ति के कारण इस सेगमेंट के परिचालन लाभ म सालाना आधार पर 15 फीसदी म बढ़ोतरी दर्ज की गई। हालांकि डाउनस्ट्रीम रासायनिक मार्जिन म कमजोरी और फीडस्टॉक की दुलाई दरों म वृद्धि ने इस बढत को आंशिक रूप से कम कर दिया। एथेन क्रैकिंग की अनुकूल इकनॉमिक्स और घरेलू बाजार म बेहतर स्थिति ने लाभ प्रदाता बनाए रखने म योगदान दिया। अपस्ट्रीम कारोबार म केजी डी-6 गैस और कंडेनसेट की कम मात्रा और कम कीमत प्राप्ति के कारण राजस्व म सालाना आधार पर 8.4 फीसदी की गिरावट आई। आवधिक रखरखाव गतिविधियों के कारण परिचालन लागत म वृद्धि के चलते परिचालन लाभ म 13 फीसदी की गिरावट आई, जबकि मार्जिन म 410 आधार अंक की कमी दर्ज की गई। गुवामा रिसर्च नई ऊर्जा के कारोबार को लेकर आशावादी है। उसका मानना है कि नई ऊर्जा के विस्तार से न केवल शुद्ध लाभ म 50 फीसदी से अधिक की वृद्धि होगी बल्कि 2035 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को देखते हुए ओट्टसी सहित कंपनी के मूल्यांकन म भी सुधार होगा।

जाल इराना के नतृत्व मे विश्लषका न  
कंपनी को खरीद की रेटिंग दी है और लक्षित  
कीमत 1,808 रुपये निर्धारित की है।

## बढ़त वाले देसी शेयरों की ओर म्यूचुअल फंडों के कदम

**नुवामा** ऑल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एक विश्लेषण से पता चला है कि दिसंबर में देसी म्युचुअल फंडों (एमएफ) ने भारत की घरेलू वृद्धि की थीम से जुड़े शेयरों को पसंद किया और वैश्विक डूकाव वाले शेयरों में निवेश घटा दिया। माह के दौरान सबसे ज्यादा खरीदे गए शेयरों में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंटरग्लोब एविएशन, स्विंगी, आईसीआईआईसीआई बैंक और मीशो शामिल रहे। नकदी जुटाने के लिए फंड मैनजरों ने इन्फोसिस, वेदात और ल्यूपिन जैसे शेयरों में अपनी हिस्सेदारी घटाई। बाजार के जानकारों का कहना है कि म्युचुअल फंडों ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ में आवेदन किया था और लिस्टिंग के बाद भी शेयर में आक्रामक खरीदारी जारी रखी।

म्युचुअल फंडों ने स्विगों के पात्र संस्थागत नियोजन (व्यूआईपी) और मोशो के आईपीओ में ही हिस्सा लिया। विश्लेषकों का मानना है कि स्विगों की बेहतर यूनिट इकनामिक्स और फूड डिलिवरी में उसकी अग्रणी स्थिति से उसके शेयर की दोबारा रेटिंग की संभावना है। मोशो को ग्रामीण और मधुबनी के छोटे शहरों के बाजारों में ख़ूबतः में वृद्धि का लाभ उठाने के दांव के रूप में देखा जा रहा है।

## क्या है फंडों के रेडार पर

सबसे ज्यादा खरीदे और बेचे गए शेयर

कंपनी	शुद्ध निवेश करोड़ रु.	कंपनी	निकासी करोड़ रु.
आईसीआईसीआई ग्रू एएमसी	6,000	इन्फोसिस	-8,500
इंटरग्लोब एविएशन	5,800	वेदांत	-1,600
रिवर्गी	5,600	बजाज फाइ.	-1,500
आईसीआईसीआई बैंक	4,300	ल्यूपिन	-1,300
मीशो	3,600	डिक्सन	-1,100

नोट :दिसंबर में म्युचुअल फंडों की तरफ से हुए निवेश और निकासी के आंकड़े।

## इन्फो के नतीजों, वृद्धि अनुमान से आईटी में चमक

ओरेकल फाइनेशियल में 5.7 फीसदी, टेक महिंद्रा में 5.16 प्रतिशत की तेजी आई

दीपक कोरगांवकर  
मुंबई, 18 जनवरी

**सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के शेयरों** में शुक्रवार को तेजी आई। कमजोर समझी जाने वाली दिसंबर तिमाही में इन्फोसिस द्वारा बड़े सौदों और मजबूत ऑर्डर प्रवाह की मदद से तिमाही आधार पर शानदार वृद्धि दर्ज किए जाने की वजह से नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर निनफटी आईटी सूचकांक 3.3 प्रतिशत चढ़ गया। इन्फोसिस के शेयर की कीमत एनएसई पर 5.6 प्रतिशत बढ़कर 1,689 रुपये हो गई, क्योंकि कंपनी ने अपने परिचालन मुनाफा मार्जिन दायरे को बनाए रखते हुए राजस्व वृद्धि के अनुमान में इजाफा किया है।

निप्टी आईटी सूचकांक में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज (7,899 रुपये) रहा, जिसमें 5.7 फीसदी की तेजी आई। इसके बाद टेक महिंद्रा में 5.16 प्रतिशत, एलटीआईआईडब्ल्यू (6,308 रुपये) में 4.6 प्रतिशत और एम्फेसिस्ट (2,886.80 रुपये) में 3.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। आईटी सूचकांक में शामिल विप्रो, कोफोर्ज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस), पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और एचसीएल टेक्नॉलॉजीज में 2 से 3 प्रतिशत की बीच बढ़ोतरी हुई। सेक्टरल इंडेक्स में निप्टी आई सूचकांक सबसे ज्यादा फायदे में रहा।

हिलेरी कापटेल को विश्वलषकी को मानना है कि इन्फोसिस अपने बीएफएसआई और एनर्जी वर्टिकलों में सुधार दर्ज कर रही है, जबकि अन्य वर्टिकलों की स्थिति सुधारने में कुछ वक़्त लग सकता है। इन्फोसिस ने बताया कि वह टॉप 25

सेगमेंट की बड़ी डील में बढ़ोतरी के कारण) और सौजन्य के हिसाब से कमजोर तिमाही में भी इस बड़ी डील का मजबूत योगदान रहा। कंपनी के प्रबंधन ने बताया कि डिस्क्रेशनरी खर्च को लेकर स्थिति सतर्क बनी हुई है और एआई चक्र के कारण पारंपरिक व्यवसाय में कुछ नरमी देखी जा रही है।

हालांकि, आईसाआईसाआईसिक्वियरटीज के अनुसार, 4.8 अरब डॉलर की कुल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू (टीसीवी) के बड़े सौदे हासिल करना एक मुख्य सकारात्मक बात थी। उसे उम्मीद है कि वित्तीय सेवाओं में यूरोप में वित्त वर्ष 2026 की तुलना में वित्त वर्ष 2027 के दौरान बेहतर वृद्धि देखने को मिलेगी।

इस बीच, एक्सप्रेस सिम्बार्टाटाज को क्विबेलषका को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 में आईटी सेक्टर में वित्त वर्ष 2026 की तुलना में ज्यादा मजबूत ग्रोथ रिकवरी होगी। इसके वजह मांग में सुधार और ज़्यादा स्थिर वृद्ध हालात, बजट खर्च में बढ़ाव, सौदा में तेजी, बेहतर इन्फ्लेमल और परियोजना क्रियान्वयन है। इसके अलावा, जेनेरेटिव एआई, आईटी आधुनिकीकरण, क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसी उभरती टेकनॉलजी की मांग प्रमुख ग्राहकों में बढ़ रही है। पिछली कुछ तिमाहियों में भारतीय आईटी सेवा कंपनियों के ग्राहकों ने आर्थिक अनिश्चितता के कारण अपने आईटी बजट में कटौती की है, खासकर अमेरिका और यूरोप में। कई बड़ी कंपनियां अभी भी लागत को लेकर सतर्कता बरतने पर जोर दे रही हैं, जिससे लागत कटौती और कर्मचारियों से जुड़े खर्चों में कमी आई है।

और मिडकैप फंडों में काफी हद तक है ही नहीं। एब्रेसिव, बिजनेस सर्विसेज और मीडिया एवं मनोरंजन जैसे सेक्टरों का मुख्य रूप से स्मॉलकैप कंपनियां ही प्रतिनिधित्व करती हैं।

वचुरा के निदेशक जुजर पाएनबा  
गाबजीवाला ने कहा, एसोसिएशन इंडिया हें  
ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया टाटा केमि

(एएमएफआई) के वर्गीकरण के अनुसार फंड मैनेजरों के लिए कई ऐसे शेयर, जिन्हें लार्ज या मिडकैप माना जाता है, वास्तव में स्मॉलकैप शेयर होते हैं। उदाहरणों में सीडीएसएल, जिलेट, एनबीसीसी, पीएनबी हाउसिंग, वॉकहार्ट, इंस्ट्रुडिया होटल्स, एंजल वन और टाटा केमिकल्स शामिल हैं।

**पंजाब एण्ड सिंध बैंक**

(भारत सरकार का उपक्रम)

**Punjab & Sind Bank**

(A Govt. of India Undertaking)

जहाँ सेवा ही जीवन – ध्येय है

**अनेक उपहार, खुशियाँ अपार**

**पीएसबी**

**अपना घर प्रीमियम**

**पीएसबी**

**अपना वाहन**

**पीएसबी**

**डिजिटल एमएसएमई ऋण**

आपको व्यवसाय के लिए

**आकर्षक ब्याज दरों पर उपलब्ध**

**कुल व्यवसाय वृद्धि**

11.75%

**सकल अग्रिम वृद्धि**

15.05%

**खुदरा अग्रिम वृद्धि**

19.58%

**एमएसएमई अग्रिम वृद्धि**

22.94%

**पीसीआर**

**92.23%**

(270 बीपीएस)

31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही / नौ-माह के लिए समीक्षित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम

	विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2025 [समीक्षित]	समाप्त तिमाही 30.09.2025 [समीक्षित]	समाप्त तिमाही 31.12.2024 [समीक्षित]	समाप्त नौ माह 31.12.2025 [समीक्षित]	समाप्त नौ माह 31.12.2024 [समीक्षित]	समाप्त वर्ष 31.03.2025 [लेखापरीक्षित]
<b>परिचालन लाभ ₹ 594 करोड़ (22.73%)</b>	परिचालनों से कुल आय	354927	337328	326937	1030194	921325	1304895
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (कर, अपवादालम्क तथा / या असाधारण मदों से पूर्व)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
	कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालम्क तथा / या असाधारण मदों के पश्चात्)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
	कर पश्चात् अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (अपवादालम्क तथा / या असाधारण मदों के पश्चात्)	33642	29452	28196	90010	70305	101583
	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि के लिए समर्केत लाभ / (हानि) (कर के पश्चात्) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात्)]						
	प्रदत्त सामान्य शेयर पूंजी	709559	709559	677779	709559	677779	709559
<b>शुद्ध लाभ ₹ 336 करोड़ (19.15%)</b>	आरक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर)						519647
	प्रतिमूर्ति प्रीमियम खला	401926	401926	313198	401926	313198	401863
	निवल मालिकता	1166380	1132065	923441	1166380	923441	1094618
	प्रदत्त ऋण पूंजी / अदत्त ऋण	733298	637029	609675	733298	609675	691065
	बकाया प्रतिदेय अधिमान शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ऋण इक्विटी अनुपात*	0.63	0.56	0.66	0.63	0.66	0.63
<b>सीआरएआर 16.83% (88 बीपीएस)</b>	प्रति शेयर अर्जन (प्रति ₹10 के) (जारी तथा बंद किए गए परिचालनों के लिए)						
	1. मूलभूत:	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
	2. डाइवर्सिफाइड:	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
	पूँजी मोचन आरक्षित निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	डिविडेंड मोचन आरक्षित निधि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	ब्याज चुकोती व्याप्ति अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
<b>सकल एनपीए 2.60% ((123) बीपीएस)</b>	ऋण चुकोती व्याप्ति अनुपात	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	*कुल ऋण, बैंक की कुल उधार राशियों को घोषित करते हैं। उधार, एक वर्ष से अधिक समय के लिए देय ऋण को घोषित करते हैं।						
	नोट: 1) चक्र, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अभ्यास), 2015 के विनियमन 33 तथा 52 के अंतर्गत शेयर बाजारों के साथ दर्ज तिमाही / नौ माह के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही / नौ माह के वित्तीय परिणामों का विस्तृत प्रारूप, शेयर बाजारों की वेबसाइट ( <a href="#">BSE: www.bseindia.com</a> ) और <a href="#">NSE: www.nseindia.com</a> ) तथा बैंक वेबसाइट ( <a href="#">https://punjabandsind.bank.in</a> ) पर उपलब्ध है।						
	2) कुल व्यापक आय तथा अन्य व्यापक आय से संबंधित जानकारी नहीं दी गई है क्योंकि बैंक में अभी तक भारतीय लेखांकन मानक लागू नहीं है।						
	कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से						

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 17.01.2026

राजीवा

कार्यपालक निदेशक

रवि मेहरा

कार्यपालक निदेशक

सरूप कुमार साहा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

**टोल फ्री नंबर:**

**1800 419 8300**

कृपया अपनी इंटरनेट बैंकिंग जानकारी जैसे सुपर आईडी / पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर / CVV / OTP किसी के साथ साझा न करें— चाहे वह फोन पर हो या ई-मेल के माध्यम से।

ईमेल : [ho.customerexcellence@psb.bank.in](mailto:ho.customerexcellence@psb.bank.in) | [वेबसाइट :](http://www.psb.bank.in) <https://punjabandsind.bank.in>

# बाजार नियामक ने एलओडीआर

## विनियमन की समीक्षा शुरू की

बाजार नियामक नो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्कलोजर रीगुलेशनमें (एलओडीआर) विनियमों की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। ये विनियमयाम सचीबद्ध कंपनियों के लिए डिस्कलोजर, कॉर्पोरेट गवर्नंस और पारदर्शिता मानदंडों को नियंत्रित करने वाले मुख्य ढांचे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस समीक्षा के लिए गठित समिति ने इस महीने की शुरुआत में अपनी पहली बैठक की। जनवरी के पहले सप्ताह में हुई यह बैठक भारतीय प्रतिष्ठान और विनियमन बोर्ड (सेबी) द्वारा नियमों को सरल बनाने और गैर-जल्दुरी चीजों को हटाने के लिए किए जा रहे नियामक सुधारों की श्रृंखला का हिस्सा है। सेबी पहले ही संशोधित म्यूचुअल फंड विनियम और स्टॉक ब्रोकर विनियम अधिसूचित कर चुका है और अधिग्रहण विनियमों और निपटान मानदंडों में भी संशोधन कर रहा है।

## सुखियों में वापस लौट रहा मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज

पिछले छह महीनों में गैर-सूचीबद्ध बाजार में मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमएसईआई) के शेयरों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन हालिया तैयारी ने इस एक्सचेंज को फिर से चर्चा में ला दिया है। पिछले कुछ हफ्तों में इसीके शेयर की कीमत दोगुनी से भी अधिक हो गई है, क्योंकि निवेशकों के बीच इस बात को लेकर अटकलें तेज हो रही हैं कि क्या एमएसईआई भारत के आकर्षक इक्विटी ट्रेडिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कंपनी के रूप में उभर सकता है। बाजार के जानकारों का कहना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के प्रस्तावित आईपीओ को लेकर चर्चा रही, चर्चा ने एक्सचेंज से जुड़े शेयरों में सकारात्मक माहौल बनाया है। हालांकि, प्रसारित अनुसार एमएसईआई में हालिया तेजी नियामकीय घटनाक्रमों से भी जुड़ी है क्योंकि एक्सचेंज को बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और निवेश विनियम बोर्ड (सेबी) से अपने कैश सेगमेंट में वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी एंहांसमेंट स्कीम (एलईएस) शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। कैश मार्केट में गतिविधि बढ़ने के बाद प्रमुख ब्रोकरेज फर्मों जैरोधा और ग्लोबल द्वारा समर्थित एमएसईआई से डेरेगुलेशन सेगमेंट में प्रवेश करने की अनुमति मांगने की उम्मीद है, जो एक्सचेंजों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है।

मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस ने  
वरिष्ठ स्तर पर बढ़ाई नियुक्ति

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) अहम परिचालन और नियामक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक शिकायत विभागों में दो और इसके लिए निर्देशक (इंडी) के पदों पर नियुक्ति की योजना बना रहा है और इसकी लागू 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले पेशेवरों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। यह कदम बाजार नियामक सेबी के उस निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें शेयर विनिमय और डिपॉजिटरी सहित मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टिट्यूशंस (एमआईआई) को अपने गवर्नर्स ढांचे को मजबूत करने के लिए कहा गया है। एक सप्ताह पहले बीएसई और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया (सीडीएसएल) ने भी कार्यकारी निर्देशक पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।

संकलन : खुशबू तिवारी



## बाजार हलचल

## हलचल





## the hindu businessline

bl.portfolio



Report card.  
How the US  
economy, markets  
fared in the first  
year of Trump 2.0  
**BIG STORY P2**



IPO Watch.  
Should you go  
for Shadowfax  
Technologies'  
public issue?  
**TAKING STOCK P5**

BENGALURU • CHENNAI • COIMBATORE • HUBBALLI • HYDERABAD • KOCHI • KOLKATA • MADURAI • MALAPPURAM • MANGALURU • MUMBAI • NOIDA • THIRUVANANTHAPURAM • TIRUCHIRAPPALLI • VIJAYAWADA • VISAKHAPATNAM

RNI No. UPENG/2022/86886

## Amid equity churn, select debt funds find winners

**BEATING THE ODDS.** US Treasury focused funds and medium duration schemes shine**Venkatasubramanian K**  
bl. research bureau

Even as equity markets have remained volatile over the past 15-16 months, select debt fund categories have delivered good returns.

The top-performing funds in the medium duration mutual fund category clocked double-digit returns — up to 13.6 per cent — over the past one year. Select schemes from the corporate bond category, too, delivered strong gains.

A relatively less noticed winner has been Indian mutual funds investing in US debt ETFs/funds, which in turn invest in US Treasuries across maturities. The five Indian debt funds with exposure to US bond funds generated 8.4-14.4 per cent returns over the past year.

These US funds/ETFs have invested in Treasuries with maturities across 0-1 year, 3-7 years, 5 years and 10 years.

However, despite US Treasury fund returns appearing superior to Indian gilts, a large part of the out-performance was due to rupee depreciation.

**Five domestic funds investing in US debt schemes (in %)**

1-year return range	Underlying US ETFs 1-year return range	INR depreciation vs US dollar (1-year)
8.4-14.4	4.2-11	4.3

**1-year returns range for domestic gilt driven funds (in %)**

Top 5 long duration funds	Top 5 gilt funds with 10-year constant duration	Top 5 gilt funds investing in Nifty 5-year benchmark g-sec ETF
4-5.6	6.8-8	7.5-8.1

**1-year return range for top fund categories (in %)**

Top 5 medium duration funds	Top 5 credit risk funds	Top 5 corporate debt funds
8.9-13.6	10.7-21.9	8-9.4

Source: Domestic and US feeder fund websites; RBI; Valueresearch; Data as of Jan 14, 2026

The yield curve movement in the US and India explains much of the fund return behaviour in the last one year.

**DOMESTIC WINNERS**

Long-tenor Indian G-Secs saw only a modest decline in yields while the fall in US Treasury yields was more.

Despite a 125 basis points interest rate cut by the RBI, yields on 5-year and 10-year G-Secs fell by just 23 basis points and 8 basis points, respectively, over the past year.

This led to relatively lower returns for domestic gilt funds.

However, the steepest yield declines happened in the shorter and medium tenor segments, with 3-year G-Secs witnessing a 55 basis points decline, while the 1-year G-Sec's yield dropped 92 basis points.

As a result, the top medium duration funds with heavy exposure to the 3-5-

year window delivered strong returns.

The top five medium duration schemes returned 8.9-13.6 per cent returns — nearly matching returns from the Indian funds investing in US debt ETFs.

By contrast, even the best-performing gilt-oriented categories — long-duration funds, gilt funds with 10-year constant maturity, and schemes tracking the Nifty 5-year G-Sec benchmark ETF

**Yield moves (in %)** Jan-25 Jan-26

US 1-year treasuries	4.19	3.54
US 3-year treasuries	4.35	3.66
US 5-year treasuries	4.44	3.82
US 10-year treasuries	4.63	4.22
India G-secs 1-year	6.65	5.73
India G-secs 3-year	6.68	6.13
India G-secs 5-year	6.7	6.47
India G-secs 10-year	6.76	6.68

Source: CCIL; Kotak MF, Refinitiv; Marketwatch; data as of Jan 16, 2025 &amp; Jan 16, 2026

**QUICK TAKE**

- Medium-duration and corporate-bond funds led returns among domestic debt categories
- Helped by rupee weakness, US Treasury fund returns appear superior to Indian gilts
- Long-tenor Indian G-Sec yields dipped only modestly, while US Treasury yields fell more

— delivered only 4-8.1 per cent returns over the same period.

The 1-year category averages stood at 4.95 per cent for gilt funds, 6.94 per cent for gilt with 10-year constant maturity and 3.56 per cent for long duration funds.

**WHAT DROVE US FUNDS**

The US Federal Reserve cut interest rates by 75 basis points during CY2025. As a result, US Treasury with 10 years to 1-year maturities saw yields fall by 41-69 basis points, triggering a bond

price rally. Indian mutual funds investing in US bond ETFs report returns in rupee terms.

However, the actual dollar returns of the underlying US funds ranged from a more modest 4.2-11 per cent.

The real kicker came from currency movement. In the last one year, the rupee has depreciated 4.3 per cent against the dollar, weakening beyond ₹90, boosting rupee-denominated returns.

That said, the current yield-to-maturity on US bond ETFs are in the 3.5-4 per cent range, suggesting that the spectacular returns of the past year may not be repeated, unless the rupee-dollar factor plays a decisive role.

Investors should note that last year's gains were driven by strong rate cuts and their impact on specific points of the yield curve.

Going ahead, rate cuts — especially in India — are likely to be slower. An accrual-driven strategy is more likely to pay off, and so return expectations need to be tempered.

Also, all Indian mutual funds investing in US bond ETFs are currently closed to fresh subscriptions.

**INVESTMENT FOCUS.**

## Neuland Laboratories: Accumulate on dips

**Sai Prabhakar Yadavalli**  
bl. research bureau

Neuland Laboratories, the API manufacturer, now derives a higher proportion of revenues from the high value contract manufacturing solutions (CMS) division, which serves innovators compared to generic APIs.

With a stable portfolio in CMS division and traction from large projects, the segment is expected to deliver strong growth following a lean patch last year.

The stock trades at 43 times the one-year forward as valuations have tracked the value-added mix.

**TRADE STRATEGY**

We recommend investors accumulate the stock on dips, tracking the stability in the innovator portfolio and the company's ability to sustain the improved margin profile.

The company reported 31 per cent/84 per cent year-on-year growth in FY24 revenues and PAT;



slowdown in order flows for the three segments delivered a 5 per cent/13 per cent decline in FY25 revenue and PAT.

The CMS segment, which serves 26 projects in commercialised and pre-registration stage, is expected to witness at least one commercialised project per fiscal which, along with ramping sales of already commercialised projects, should support strong growth.

The company has expanded into peptide segment as well, investing in capability, infrastructure and early-stage clients. It has expanded its manufacturing capacity as well.

The EBITDA margins have tracked the revenue mix of CMS division and should improve with growth of that division.

## DGCA slaps ₹22 cr fine on IndiGo over disruptions

**Rohit Vaid**  
New Delhi

India's aviation safety regulator, Directorate General of Civil Aviation (DGCA), has imposed financial penalties amounting to ₹22.20 crore on IndiGo following an inquiry into large-scale flight disruptions reported last month. Accordingly, of the total penalty, ₹1.80 crore has been imposed as one-time systemic fines for multiple instances of regulatory non-compliance.

Besides, ₹20.40 crore has been levied for continued non-compliance with the revised flight duty time limitation (FDTL) norms over 68 days — from December 5, 2025 to February 10, 2026. Also, DGCA has directed IndiGo to pledge a ₹50-crore bank guarantee under the IndiGo Systemic Reform Assurance Scheme (ISRAS).

Per the regulator, the

phased release of the bank guarantee will be linked to DGCA-verified implementation of corrective measures.

**PHASED FUND RELEASE**

Under the ISRAS framework, ₹10 crore of the bank guarantee is linked to leadership and governance reforms to be certified within three months. A tranche of ₹15 crore is tied to manpower planning, rostering and fatigue-risk management over six months. Another ₹15 crore is linked to digital systems upgrades and operational safeguards within nine months. The remaining ₹10 crore is associated with sustained board-level oversight over 9-15 months. DGCA has also issued cautions to several senior officials of InterGlobe Aviation. These include a caution to the CEO Pieter Elbers for inadequate oversight of flight operations and crisis management.

Furthermore, a warning

was issued to the Accountable Manager and COO for failure to assess the impact of the Winter Schedule 2025 and the revised FDTL provisions. Meanwhile, the Senior Vice-President, Operations Control Centre, was warned and directed to be relieved of current responsibilities. Other senior officials involved in flight operations and crew resource planning were also warned.

The enforcement action follows an inquiry conducted by a four-member committee constituted by the DGCA which was initiated after IndiGo reported the cancellation of 2,507 flights and delays to 1,852 flights between December 3 and 5, 2025, affecting over three lakh passengers across the country.

**KEY CAUSES**

According to the committee, the primary causes of the disruptions were over-optimisa-

tion of operations, inadequate regulatory preparedness, deficiencies in system software, and shortcomings in management oversight and operational control. The committee observed that the airline failed to maintain adequate operational buffers and did not effectively implement the revised FDTL provisions, leading to widespread delays and cancellations.

Per the inquiry, crew rosters were designed to maximise utilisation of aircraft and crew, including greater reliance on dead-heading, tail swaps, extended duty patterns, and minimal recovery margins, which hit operational resilience.

Separately, the DGCA has initiated an internal inquiry to identify and implement systemic improvements in regulatory processes. In a message, IndiGo's Chairman and the board said corrective measures will be taken.

**INSIDE.**

## Govt allows export of 5 lt wheat products

**Prabhudatta Mishra**  
New Delhi

Ahead of the next wheat harvesting season, which starts from April, India's Directorate General of Foreign Trade (DGFT) has allowed 5 lakh tonnes of wheat products for export, partially lifting a ban imposed in 2022.

However, the move may help the diaspora buy *atta*, *maida*, and *sooji* from domestic brands they can easily identify, experts said.

The DGFT order said that the export authorisation (permit) issued by it will be subject to the modalities notified vide public notice.

The Food Ministry in November 2025 had forwarded an industry demand to the DGFT seeking export of wheat products, suggesting that it could start with a cap of 10 lt.

Read more p12

## Jump in provisions drag ICICI Bank net down

**Our Bureau**  
Mumbai

ICICI Bank reported a 4 per cent year-on-year decline in standalone net profit for the third quarter at ₹11,318 crore, weighed down by a sharp rise in provisions. The bank's bottom line was hit by an additional standard asset provision of ₹1,283 crore, made in line with RBI directions related to a portfolio of agricultural priority sector loans. Net profit in the year-ago quarter stood at ₹11,792 crore.

Following its annual supervisory review for FY2025, the RBI directed the bank to create the provision on an agricultural credit portfolio of ₹20,000-25,000 crore, where the loan terms were found to be not fully compliant, said Sandeep Batra, ED.

Details p12

## HDFC Bank Q3 PAT up 12% at ₹18,654 crore

**Piyush Shukla**  
Mumbai

Country's largest private sector lender HDFC Bank on Saturday reported 12 per cent year-on-year (y-o-y) rise in net profit for the quarter ended December at ₹18,654 crore, led by robust growth in core and other income.

The lender's overall deposits rose 12 per cent y-o-y to ₹28.60 lakh crore, while advances were up 10 per cent at ₹29.46 lakh crore. In a post earnings media interaction, the bank's management said the lender aims to bring down credit-deposit (CD) ratio to historical level of around 90 per cent over a period of time from over 100 per cent as on December end, but did not provide specific timeline to do so.

Details p12

## Neville Tata entry delayed as board meet deferred

**Our Bureau**  
Mumbai

A crucial board meeting of Tata Trusts, scheduled for Saturday to consider the appointment of Neville Tata to the board of Sir Ratan Tata Trust, has been cancelled and deferred, sources said. The meeting was called off as the required quorum could not be met, with some trustee members unavailable, according to people familiar with the matter.

Neville Tata's appointment is now expected to be taken up at the next board meeting, likely later this month or early next month, the sources added. The postponement delays Neville Tata's induction into the board of the second major trust within the Tata Trusts umbrella.

Also read p12

ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ  
(भारत सरकार का उपक्रम)

Punjab & Sind Bank  
(A Govt. of India Undertaking)

Where service is a way of life

AT ATTRACTIVE RATE OF INTEREST

Total Business Growth 11.75%

Gross Advances Growth 15.05%

Retail Advances Growth 19.58%

MSME Advances Growth 22.94%

PCR 92.23% (270 bps)

Reviewed Un-audited Financial results for the Quarter/ Nine Months ended 31st December, 2025

	Quarter ended 31.12.2025 [Reviewed]	Quarter ended 30.09.2025 [Reviewed]	Quarter ended 31.12.2024 [Reviewed]	Nine Months ended 31.12.2025 [Reviewed]	Nine Months ended 31.12.2024 [Reviewed]	Year ended 31.03.2025 [Audited]
<b>Operating Profit</b> Rs. 594 Cr. (22.73%)						
Particulars	354927	337328	326937	1030194	921325	133755
Total income from operations						
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	45647	35739	37465	113688	89518	133755
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	33642	29452	28196	90010	70305	101583
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]						
Paid up Equity Share Capital	709559	709559	677779	709559	677779	709559
Reserves (excluding Revaluation Reserve)						519647
Securities Premium Account	401926	401926	313198	401926	313198	401863
Net worth	1166380	1132065	923441	1166380	923441	1094618
Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	733298	637029	609675	733298	609675	691065
Outstanding Redeemable Preference Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debt Equity Ratio*	0.63	0.56	0.66	0.63	0.66	0.63
Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -						
1. Basic :	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
2. Diluted:	0.47	0.42	0.42	1.27	1.04	1.50
Capital Redemption Reserve	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Debt Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Interest Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Debt Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

\* Total debts represent total borrowings of the Bank. Borrowings represent debts due for more than one year.

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 and 52 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Nine Months Financial Results are available on Stock Exchange website (BSE: [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and NSE: [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and website of the Bank (<https://punjabandsind.bank.in/>)

2. Information relating to Total Comprehensive Income and Other Comprehensive Income is not furnished as Ind AS is not yet applicable on banks.

Place: New Delhi  
Date: 17.01.2026

Rajeeva  
EXECUTIVE DIRECTOR

Ravi Mehra  
EXECUTIVE DIRECTOR

Swarup Kumar Saha  
MANAGING DIRECTOR & CEO

TOLL FREE NO.:  
1800 419 8300

Do not share your Internet Banking details, such as, user ID/password or your credit card number/CVV/OTP with anyone-either over phone or through email.  
Email : [ho.customerexcellence@psb.bank.in](mailto:ho.customerexcellence@psb.bank.in) Website : <https://punjabandsind.bank.in>



enapneriansatta.com